

Subject and Predicate

Subject - The person or thing we speak about.

Example - Rita lives in a big house.



(Subject)

Question 1) Underline the subject in the following sentences –

- a) London is the capital of England.
- b) Mahatma Gandhi was born in Gujarat.
- c) The fire burns brightly.

Question 2) Fill in the blanks with a suitable subject –

- a) _____ shed their leaves in winter.
- b) _____ is the biggest planet in the solar system.
- c) _____ caught the thief.

Predicate - What we speak about a person or thing.

Example - Indian farmers are hard-working people.



(Predicate)

Question 3) Underline the predicate in the following sentences –

- a) The peacock is the national bird of India.
- b) My father plays cricket with me every Sunday.
- c) A good student is always punctual.

Question 4) Fill in the blanks with a suitable predicate –

- a) My painting _____
- b) The Statue of Liberty _____
- c) An elephant _____

*Answer key of this worksheet will be uploaded with the next worksheet.



1. QUESTION 1 – ADDITION

- a. $361286+561178 =$ _____
- b. $740972+52978+188651 =$ _____
- c. $265758+153428+117349 =$ _____

2. QUESTION 2 – SUBTRACTION

- a. $563628-518743 =$ _____
- b. $851962-743978 =$ _____
- c. $465182-12745 =$ _____

3. QUESTION 3 – DODGING

- a. $9 \times 5 =$ ____
- b. $11 \times 6 =$ ____
- c. $12 \times 8 =$ ____
- d. $13 \times 4 =$ ____
- e. $8 \times 9 =$ ____
- f. $7 \times 8 =$ ____
- g. $14 \times 5 =$ ____
- h. $12 \times 7 =$ ____
- i. $13 \times 6 =$ ____
- j. $12 \times 2 =$ ____

**ANSWER KEY OF THIS WORKSHEET WILL BE UPLOADED ALONG WITH THE NEXT WORKSHEET*

प्र. 1

बॉक्स में दिये गये वर्णों से शब्द बनाओ।
 गूँह से ध्वनी जो आती, वर्ण वही कहलाती।

क	बा	प
झी	ल	जा
ट	ह	म
ब	र	ना

प्र. 2

शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार सही जगह पर लिखो।
 चावल, रामप्रण, सूर्य, नीलम, ईमानदारी, बचपन,
 कस्ता, अच्छाई

व्यक्तिवाचक संज्ञा

आदिवाचक संज्ञा

भाववाचक संज्ञा

प्र. 3

दिये गये शब्दों में से एकवचन तथा बहुवचन छाँटो।
 एकवचन बहुवचन

घड़ा	महिलाएँ
गमला	आँख
चिड़िया	महिला
आँखें	चिड़ियाँ
गमले	घड़े

नोट - इन प्रश्नों के उत्तर अगली कक्षाईट में दिये जायेंगे।

FOOD AND HEALTH

Food is an essential part of our everyday life and to stay healthy, our body needs a balanced diet.

What is a Balanced Diet?

A diet which has all the nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, in right amount.

Carbohydrates : give us energy to work.

Sources: cereals, pulses, sweet potato, sugar.

Proteins: help us grow.

Sources: milk, eggs, meat, pulses.

Fats: give us more energy than carbohydrates.

Sources: oil, butter, ghee

Vitamins: keep our body fit, improve appetite and increase the body's ability to fight diseases.

Sources: fruits, green vegetables.

Minerals: help in growth and development of the body.

Sources: fruits and vegetables.

SELF ASSESSMENT:

Complete the table below:

NUTRIENT	IMPORTANCE	SOURCES
Minerals		
	Give us more energy than carbs	
Carbohydrates		
	Improve appetite	
		Milk, meat, eggs

Kindly note:

Answer key to this worksheet will be uploaded along with the next worksheet.

